



04 दिसम्बर 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- ओपेक+ के तेल उत्पादक अगले साल की शुरुआत में सऊदी अरब के वर्तमान स्वैच्छिक कटौती के नेतृत्व में कुल लगभग 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती पर सहमत हुए।
- भारत में सोने की मांग सितंबर-23 तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़कर 210 टन हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 192 टन थी, जो काफी हद तक निवेश मांग के कारण बढ़ी है।
- भारत ने 28 जून से शुरू हुई पांच महीनों में खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत एफसीआई स्टॉक से 4 मिलियन टन से अधिक गेहूँ की बिक्री की है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में दालों का आयात दोगुने से अधिक हो गया। वित्तीय वर्ष 2034-24 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान दालों के आयात में लगभग 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 14.85 लाख टन से अधिक हो गया।
- भारतीय अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6% बढ़ी है: सरकारी आंकड़ा।
- इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन से भारत का इस्पात आयात 1.11 मिलियन टन रहा, जो छह वर्षों में सबसे अधिक है।
- एक वैश्विक एल्युमीनियम उत्पादक ने जापानी खरीदारों को जनवरी-मार्च में प्राथमिक एल्युमीनियम शिपमेंट के लिए 95 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का प्रीमियम देने की पेशकश की है, जो मौजूदा तिमाही के 97 डॉलर प्रति टन के प्रीमियम से 2% कम है।
- चीन ने अक्टूबर में 353,000 मीट्रिक टन रिफाईंड तांबे का आयात किया, जो इस वर्ष की सबसे अधिक मासिक आयात है।
- मुनाफे में बढ़ी हिस्सेदारी की मांग को लेकर अपुरिमैक क्षेत्र की खदान में श्रमिकों द्वारा की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सामान्य गतिविधियों के फिर से शुरू होने के साथ समाप्त होने वाली है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 24.11.23 | 30.11.23 | बदलाव (%) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| धनिया | 7,866.00 | 8,238.00 | 4.73% |
| मूंगफली | 6,459.00 | 6,607.00 | 2.29% |
| रोबस्टा कॉफी | 25,770.00 | 25,970.00 | 0.78% |
| मक्का | 2,210.00 | 2,220.00 | 0.45% |
| ग्वारसीड | 5,641.00 | 5,645.00 | 0.07% |

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 24.11.23 | 30.11.23 | बदलाव (%) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| सीसेमसीड | 18,415.00 | 17,870.00 | -2.96% |
| स्टील लांग | 44,310.00 | 43,430.00 | -1.99% |
| कॉटनऑयलसीडकेक | 2,969.00 | 2,916.00 | -1.79% |
| इसबगोल | 23,925.00 | 23,595.00 | -1.38% |
| धान | 4,473.00 | 4,418.00 | -1.23% |

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 24.11.23 | 30.11.23 | बदलाव (%) |
|-----------|----------|----------|-----------|
| मेंथा ऑयल | 914.10 | 1005.10 | 9.96% |
| सोना पेटल | 6007.00 | 6262.00 | 4.25% |
| सोना गिनी | 49120.00 | 50153.00 | 2.10% |
| सोना एम | 61352.00 | 62639.00 | 2.10% |
| लेड | 186.15 | 190.05 | 2.10% |

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 24.11.23 | 30.11.23 | बदलाव (%) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| नेचुरल गैस | 237.80 | 234.90 | -1.22% |
| एल्युमीनियम | 201.80 | 201.05 | -0.37% |

साप्ताहिक समीक्षा

तीन सप्ताह की गिरावट का अनुभव करने के बाद, खरीददारी गतिविधियों के कारण सीआरबी इंडेक्स में रिकवरी हुई। दूसरी ओर, डॉलर इंडेक्स को लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने कुछ नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया। डॉलर इंडेक्स में गिरावट से पैदा हुए अवसर का लाभ उठाते हुए, सोने ने चांदी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। इस सप्ताह सोने की कीमतों में शानदार बढ़त देखी गई क्योंकि फेड अधिकारियों ने कहा कि मुद्रास्फीति में हाल ही में गिरावट से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी नहीं करेगा, और मुद्रास्फीति में फिर से कमी आने से 2024 की शुरुआत में बैंक दरों में कटौती करने के लिए प्रेरित हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में, नेचुरल गैस की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर रही थी, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई। ओपेक+ उत्पादकों द्वारा अगले साल की पहली तिमाही के लिए स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती पर सहमति जताने, जो बाजार की उम्मीदों से कम रही, के बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में कुछ साप्ताहिक बढ़त कम हो गई। सऊदी अरब, रूस और ओपेक+ के अन्य सदस्य, जो दुनिया का 40% से अधिक तेल उत्पादन करते हैं, 2024 की पहली तिमाही के लिए प्रति दिन 2 मिलियन बैरल तक स्वैच्छिक उत्पादन कटौती पर सहमत हुए। तांबे की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट देखी गई। वृद्धि, जबकि एल्युमीनियम की कीमतों ने सकारात्मक विकास को नजरअंदाज कर दिया, जिससे कीमतें लगातार तीसरी सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुईं। लेड की कीमतों में खरीददारी हुई, लेकिन जिंक की कीमतों में गिरावट हुई। पर्जेजिंग मैनुजर सूचकांक आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में चीन की मैनुफैक्चरिंग गतिविधि उम्मीद से अधिक घट गई, जिससे निर्यात मांग घटने से गिरावट हुई। मंदी ने तांबे की मांग में संभावित गिरावट की ओर इशारा किया। लेकिन पेरू और पनामा में प्रमुख खदानों के बंद होने के बाद तांबे के बाजार में कमी के संकेतों से यह धारणा दूर हो गई, जिससे आने वाले महीनों में तांबे की आपूर्ति सीमित होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और हरित ऊर्जा प्रोत्साहन से भी चीन की ओर से मांग में गिरावट की भरपाई होने की उम्मीद है।

कृषि क्षेत्र में, अरंडी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह मंदी का रुख रहा और सूरजमुखी तेल की कीमतों में भी कमजोरी देखी गई। वर्ष 2023-24 में अरंडी का उत्पादन 16.69 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 19.80 लाख टन की तुलना में 16% कम है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतें साप्ताहिक स्तर पर गिरावट के साथ बंद हुईं। मसालों में, हल्दी और जीरा की कीमतों को बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट हुई, जबकि धनिया ने व्यापारियों के लिए खरीदारी के अवसर प्रदान किया। प्रचलित दर पर निर्यात पूछताछ कम रही है क्योंकि वैश्विक खरीदार भारतीय जीरा की कीमत, प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता के मुद्दे के कारण इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। गुजरात में देरी से बुआई के कारण वर्ष 2023 में अब तक बुआई गतिविधियाँ धीमी हैं क्योंकि 20 नवंबर तक गुजरात में केवल 35754 हेक्टेयर में धनिया बोया गया है, जबकि पिछले वर्ष 95633 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। मजबूत निर्यात मांग से धनिया की कीमतों में मजबूती को समर्थन मिला। ग्वार की कीमतें नरमी के रूझान के साथ एक दायरे में रही।



हाजिर कीमतें

| कमोडिटी | स्थान | 24.11.2023 | 30.11.2023 | बदलाव(%) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| जौ | जयपुर | 2,155.00 | 2,150.00 | -0.23% |
| चना | दिल्ली | 6448.10 | 6365.55 | -1.28% |
| धनिया | कोटा | 8003.80 | 8260.15 | 3.20% |
| क्रूड पॉम ऑयल | कांडला | 799.50 | 789.35 | -1.27% |
| गुड़ | मुजफ्फरपुर | 1370.20 | 1372.00 | 0.13% |
| ग्वारसीड | जोधपुर | 5602.00 | 5622.00 | 0.36% |
| ग्वारगम | जोधपुर | 11488.00 | 11307.00 | -1.58% |
| जीरा | ऊझा | 45981.80 | 45969.60 | -0.03% |
| सरसों | जयपुर | 5945.85 | 5949.50 | 0.06% |
| रिफाइंड सोया तेल | मुंबई | 965.00 | 957.50 | -0.78% |
| सोयाबीन | इंदौर | 5249.80 | 5147.90 | -1.94% |
| हल्दी | निजामाबाद | 13401.20 | 13663.15 | 1.95% |
| गेहूं | दिल्ली | 2705.00 | 2803.35 | 3.64% |
| कॉटन | कड़ी | 26998.75 | 26628.25 | -1.37% |
| कॉटनऑयलसीडकेक | अकोला | 2885.50 | 2927.65 | 1.46% |

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

| कमोडिटी | एक्सचेंज | कॉन्ट्रैक्ट | 24.11.2023 | 30.11.2023 | बदलाव(%) |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| एल्युमीनियम | LME | नकद | 2216.00 | 2193.00 | -1.04% |
| तांबा | LME | नकद | 8428.50 | 8464.50 | 0.43% |
| लेड | LME | नकद | 2196.50 | 2123.00 | -3.35% |
| निकल | LME | नकद | 16138.00 | 16645.00 | 3.14% |
| जिंक | LME | नकद | 2553.50 | 2475.50 | -3.05% |
| सोना | COMEX | फरवरी | 2013.70 | 2057.20 | 2.16% |
| चांदी | COMEX | मार्च | 24.34 | 25.41 | 4.41% |
| लाइट क्रूड | NYMEX | जनवरी | 75.54 | 75.96 | 0.56% |
| नेचुरल गैस | NYMEX | दिसम्बर | 2.86 | 2.80 | -1.86% |

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

| कमोडिटी | एक्सचेंज | कॉन्ट्रैक्ट | 24.11.2023 | 30.11.2023 | बदलाव(%) |
|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| सोयाबीन | CBOT | जनवरी | 13.61 | 13.75 | 1.03% |
| सोया तेल | CBOT | दिसम्बर | 51.06 | 52.26 | 2.35% |
| कॉटन | ICE | दिसम्बर | 78.59 | 79.40 | 1.03% |
| सीपीओ | BMD | फरवरी | 3,891.00 | 3,895.00 | 0.10% |

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

| कमोडिटी | यूनिट | 23.11.2023 क्वांटिटी | 30.11.2023 क्वांटिटी | अंतर |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|------|
| कॉटन | मी.टन | 24163 | 24163 | 0 |
| बाजरा | मी.टन | 774 | 774 | 0 |
| मक्का | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| कैस्टर सीड | मी.टन | 9467 | 10460 | 993 |
| चना | मी.टन | 8264 | 7789 | -475 |
| धनिया | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| कॉटनऑयलसीडकेक | मी.टन | 21630 | 21848 | 218 |
| ग्वारगम | मी.टन | 16600 | 18385 | 1785 |
| ग्वारसीड | मी.टन | 9 | 9 | 0 |
| जीरा | मी.टन | 2345 | 1919 | -426 |
| मक्का | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| स्टील लॉन | मी.टन | 522 | 522 | 0 |
| हल्दी | मी.टन | 2248 | 2368 | 120 |

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

| कमोडिटी | यूनिट | 22.11.2023 क्वांटिटी | 30.11.2023 क्वांटिटी | अंतर |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------|
| एल्युमीनियम | मी.टन | 899 | 884 | -16 |
| तांबा | मी.टन | 4141939 | 5239091 | 1097152 |
| सोना | किग्रा | 401 | 418 | 17 |
| सोना मिनी | किग्रा | 2464 | 2464 | 0 |
| सोना गिनी | किग्रा | 95100 | 95100 | 0 |
| लेड | किग्रा | 0 | 0 | 0 |
| चांदी (30 किग्रा बार) | किग्रा | 97824 | 91636 | -6188 |
| चांदी एम | किग्रा | 37733 | 37733 | 0 |
| जिंक | मी.टन | 0 | 0 | 0 |

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

| कमोडिटी | स्टॉक की स्थिति 24.11.2023 | स्टॉक की स्थिति 30.11.2023 | अंतर |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| एल्युमीनियम | 471875 | 459375 | -12500.00 |
| तांबा | 177800 | 175250 | -2550.00 |
| निकल | 44874 | 46338 | 1464.00 |
| लेड | 137975 | 141575 | 3600.00 |
| जिंक | 210825 | 226250 | 15425.00 |



ट्रेंड शीट

| एक्सचेंज | कमोडिटी | कांटेक्ट | बंद * भाव | ट्रेंड बदलाव की तिथि | ट्रेंड | भाव के ट्रेंड में बदलाव | सपोर्ट | रेजिस्टेंस | क्लोजिंग स्टॉप लास |
|----------|---------------|----------|--------------|-------------------------|---------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| NCDEX | जीरा | दिसम्बर | 44610.00 | 10.10.23 | मंदी | 58000.00 | - | 47000.00 | 47100.00 |
| NCDEX | हल्दी | दिसम्बर | 12796.00 | 20.09.23 | मंदी | 15000.00 | - | 13530.00 | 13600.00 |
| NCDEX | ग्वारसीड | दिसम्बर | 5645.00 | 05.10.23 | तेजी | 5500.00 | 5350.00 | - | 5300.00 |
| NCDEX | कैस्टरसीड | दिसम्बर | 6066.00 | 14.09.23 | मंदी | 6300.00 | - | 6320.00 | 6350.00 |
| NCDEX | स्टील लांग | दिसम्बर | 43430.00 | 27.09.23 | मंदी | 46300.00 | - | 44500.00 | 44550.00 |
| NCDEX | कॉटनऑयलसीडकेक | दिसम्बर | 2916.00 | 02.08.23 | तेजी | 2820.00 | 2820.00 | - | 2800.00 |
| MCX | मेंथा ऑयल | दिसम्बर | 928.50 | 27.09.23 | मंदी | 930.00 | - | 947.00 | 950.00 |
| MCX | बुलडेक्स | दिसम्बर | 16464.00 | 10.10.23 | तेजी | 15000.00 | 16250.00 | - | 16200.00 |
| MCX | चांदी | मार्च | 77515.00 | 10.10.23 | तेजी | 69000.00 | 74100.00 | - | 74000.00 |
| MCX | सोना | फरवरी | 62640.00 | 10.10.23 | तेजी | 57500.00 | 61450.00 | - | 61400.00 |
| MCX | तांबा | दिसम्बर | 722.00 | 01.11.23 | तेजी | 707.00 | 711.00 | - | 710.00 |
| MCX | लेड | दिसम्बर | 185.75 | 28.11.23 | साइडवेज | 187.00 | 180.00 | 193.00 | - |
| MCX | जिंक | दिसम्बर | 222.90 | 01.11.23 | तेजी | 220.00 | 216.00 | - | 215.00 |
| MCX | एल्युमिनियम | दिसम्बर | 201.20 | 28.11.23 | साइडवेज | 202.50 | 195.50 | 210.00 | - |
| MCX | कच्चा तेल | दिसम्बर | 6407.00 | 01.11.23 | मंदी | 6800.00 | - | 6625.00 | 6650.00 |
| MCX | नेचुरल गैस | दिसम्बर | 234.90 | 01.11.23 | तेजी | 290.00 | 209.00 | - | 205.00 |

*30/12/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कमी-कमी आप चाहेगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

कच्चा तेल (दिसम्बर) एमसीएक्स



कच्चा तेल (दिसम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 7375.00

निचला स्तर: 6056.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 30 नवम्बर 2023 को 6407.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6424.40 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 43.63 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6650.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5800.00 ₹ के टारगेट के लिए 6400.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

कैस्टरसीड (दिसम्बर) एनसीडीईएक्स



कैस्टरसीड (दिसम्बर) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6300.00

निचला स्तर: 5760.00

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 30 नवम्बर 2023 को 6066.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6032.19 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 49.95 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6200.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5800.00 ₹ के टारगेट के लिए 6050.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

तांबा (दिसम्बर) एमसीएक्स



तांबा (दिसम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 726.15

निचला स्तर: 698.00

एमसीएक्स में तांबा (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 30 नवम्बर 2023 को 722.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 719.44 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 60.872 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

708.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 736.00 ₹ के टारगेट के लिए 718.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। चालू वर्ष (2023-24) के 10.45 लाख टन के उत्पादन की तुलना में कुल उत्पादन कम रहने की संभावना है। हल्दी के तहत कम रकबा के मद्देनजर ऐसा लगता है कि वर्ष 2024-25 के लिए कुल उत्पादन में कम से कम 8%-10% गिरावट होने की संभावना है। हल्दी की कीमतों में हाल ही में गिरावट के बाद आने वाले महीनों में हल्दी निर्यात बढ़ने की उम्मीद है जिससे हल्दी की कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक लग सकती है। बांग्लादेश में आयात में गिरावट के साथ सितंबर-24 में भारतीय हल्दी का निर्यात साल-दर-साल 35% गिरकर 9.0 हजार टन हो गया। बांग्लादेश भारतीय हल्दी का सबसे बड़ा आयातक रहा है, लेकिन उसने अपने आयात में साल-दर-साल 70% की कटौती कर 1083 टन कर दिया है। इस सप्ताह में हल्दी की कीमतों के 12000-13900 के दायरे में रहने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में उभरती खरीदारी के कारण जीरा की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कीमतों में हाल ही में गिरावट के बाद आपूर्ति कम होने के कारण स्टॉकिस्ट आक्रामक खरीदारी कर रहे हैं। कम आपूर्ति का असर कुल निर्यात पर देखा जा रहा है क्योंकि सितंबर-24 में जीरा निर्यात फिर से पिछले वर्ष के 17.15 हजार टन की तुलना में 65% कम होकर 5.9 हजार टन हो गया। अप्रैल-23-सितंबर-23 के दौरान कुल जीरा निर्यात में साल-दर-साल 32% की गिरावट हुई है। आगे चलकर, बाजार की नजर गुजरात में चल रही बुआई गतिविधियों पर रहने की संभावना है। 28 नवंबर 2023 तक गुजरात में 2.44 लाख हेक्टेयर में जीरा की बुआई हुई है जबकि पिछले वर्ष 1.13 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। खेती की लागत पर बेहतर मुनाफा और मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण बुआई गतिविधियों से बाजार के सेंटोमेंट पर असर पड़ सकता है। निकट भविष्य में जीरा की कीमतों के 40500-51500 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

बढ़ते निर्यात और कमजोर वैश्विक आपूर्ति की रिपोर्टों के कारण धनिया की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। गुजरात में देरी से बुआई के कारण वर्ष 2023 में अब तक बुआई गतिविधियाँ धीमी हैं क्योंकि 20 नवंबर तक गुजरात में 56 हजार हेक्टेयर में धनिया की बुआई हुई है जबकि पिछले वर्ष 1.57 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। भारत ने पिछले वर्ष के 2.5 हजार टन के मुकाबले सितंबर-23 में लगभग 4 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जबकि अप्रैल-23-सितंबर-23 के दौरान कुल निर्यात 66.2 हजार टन दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 297% अधिक है। धनिया की कीमतों के 7700-8750 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

कमजोर उत्पादन अनुमान और कपास की बढ़ती शीतकालीन मांग के कारण कपास की कीमतों में तेजी की संभावना है। पिछले वर्ष की 50 लाख गांठ के मुकाबले नवंबर-23 के अंत तक लगभग 46 लाख गांठ कपास की आवक हुई है। निर्यात की धीमी गति के कारण बढ़त सीमित होने की संभावना है। भारतीय कपास की कीमतों की प्रतिस्पर्धात्मकता मौजूदा दरों पर निर्यात को अव्यावहारिक बना रही है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ नई फसल की आवक में तेजी आने की संभावना है जो निकट भविष्य में अत्यधिक बढ़त को सीमित कर देगी। कटाई के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल है जिससे बाजार में नई फसल की आपूर्ति बढ़ेगी। कपास उत्पादन और उपभोग समिति ने अनुमान लगाया है कि चालू सीजन (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में कपास का उत्पादन 316.57 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होगा, जबकि 2022-2023 में 336.60 लाख गांठ होगा। एमसीएक्स पर कॉटन (दिसम्बर) की कीमतों के 55000-58700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1540-1600 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

इसी तरह, बाजार में वैकल्पिक भोजन की उपलब्धता बढ़ने से कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों में गिरावट की संभावना है। आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं से कीमतों पर असर पड़ेगा। कॉटनसीडऑयलकेके की कीमतों के 2720-3050 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

बाजार में आपूर्ति कम होने से ग्वारसीड वायदा कीमतों में तेजी की उम्मीद है। पिछले साल की तुलना में ग्वार का कुल उत्पादन कम हुआ है, जिससे कीमतों में हर गिरावट पर स्टॉकिस्ट आक्रामक खरीदारी कर रहे हैं। ग्वारमील की घरेलू मांग में भी वृद्धि हुई है जिससे मौजूदा स्तर पर ग्वारसीड की मांग में वृद्धि होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सीमित खरीद के कारण अगस्त-23 में ग्वारगम का निर्यात माह-दर-माह 16% घटकर 17 हजार टन के करीब रह गया। ग्वारसीड की कीमतों को जल्द ही 5450 के करीब सपोर्ट मिल सकता है, जबकि रेंजिस्टेंस 6100 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 11000 पर सपोर्ट रहने की संभावना है जबकि रेंजिस्टेंस 12800 पर देखा जा सकता है।

बाजार में सीमित उपलब्धता के मुकाबले खरीदारी में सुधार के कारण मंथा तेल की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। वर्ष 2023 में उत्पादन में गिरावट के साथ आपूर्ति में गिरावट हुई है और इससे आग कीमतों की तेजी को मद्धत मिल सकती है। लेकिन मंथा ऑयल का सुस्त निर्यात अभी भी निर्यातकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जिससे बढ़त सीमित रह सकती है। भारत ने अप्रैल-23-अगस्त-23 के दौरान लगभग 692 टन मंथा तेल का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष के 886 टन की तुलना में यह 21% कम है। मंथा ऑयल (दिसम्बर) वायदा की कीमतों को 890 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 955 पर रेंजिस्टेंस रह सकता है।

बाजार में आपूर्ति कम होने के कारण अरंडी की कीमतें बढ़ने की संभावना है। अरंडीमील के निर्यात में बढ़ोतरी की रिपोर्ट से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। अरंडी (दिसम्बर) वायदा की कीमतों के 5800-6300 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्पाफा

अमेरिका में मुद्रास्फीति कम होने के संकेत के बाद आगामी ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें मजबूत होने के कारण सोने की कीमतों में लगातार तीसरी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में मामूली वृद्धि हुई है, साथ ही 2.5 वर्षों में मुद्रास्फीति में सबसे कम वार्षिक वृद्धि हुई है। जैसा कि इस सप्ताह दो फंड अधिकारियों द्वारा कहा गया कि दरों में कटौती की दिशा में फेडरल रिजर्व के संभावित बदलाव ने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और अधिक आरामदायक श्रम बाजार द्वारा समर्थन मिला। व्यापारियों ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दर में कटौती के लिए अपनी भविष्यवाणियों को समायोजित किया, और सीएम्ई के फेडवॉच टूल ने मार्च में एक-दो कटौती की संभावना के बाद मई में 80% संभावना जतायी है। कम ब्याज दरों के अनुमान के कारण सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इससे बुलियन जैसी गैर-ब्याज वाली संपत्ति रखने की अवसर लागत कम हो गई। इसके अतिरिक्त, महीने के अंत में प्रवाह और नवंबर और दिसंबर के बीच सोने की बढ़त में मौसमी रुझान ने भी भूमिका निभाई। डॉलर इंडेक्स और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में गिरावट देखी गई, नवंबर में डॉलर ने एक साल में सबसे कमजोर मासिक प्रदर्शन दर्ज किया। मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष रूप से हमला के साथ संघर्ष को फिर से शुरू करने की इजराइल की योजनाओं के संबंध में, बाजारों द्वारा निगरानी की गई। अमेरिकी पीसीई मूल्य सूचकांक अक्टूबर में एक साल पहले की तुलना में 3% बढ़ गया, जो पिछले तीन महीनों में देखी गई 3.4% की बढ़त से कमी का संकेत देता है। कॉमेक्स पर, सोने की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहा, और कीमतों को 2020 डॉलर के पास समर्थन मिल रहा है और 2090 डॉलर के आसपास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई, जहां कीमतों को 23.00 डॉलर के आसपास अपेक्षित सपोर्ट और 27.10 के आसपास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। आगे, एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 60500 से 63400 के बीच कारोबार कर सकती हैं जबकि चांदी की कीमतें 74000 और 81000 के बीच उतार-चढ़ाव कर सकती है, गिरावट पर खरीदारी की रणनीति की सलाह दी गई है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट जारी रही, क्योंकि ओपेक+ उत्पादकों द्वारा स्वैच्छिक उत्पादन कटौती पर सहमति बाजार की उम्मीदों से कम रही। वैश्विक तेल उत्पादन के 40% से अधिक के लिए जिम्मेदार गठबंधन ओपेक+ कम होती कीमतों, जो सितंबर के अंत में लगभग 98 डॉलर से कम हो गई है, के जवाब में उत्पादन में कटौती को प्राथमिकता दे रहा है। 2024 में सुस्त आर्थिक विकास के बारे में चिंताएं और आपूर्ति सरप्लस की संभावना से कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। 900,000 बैरल प्रति दिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती पर सहमति के साथ मौजूदा 1.3 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन कटौती का विस्तार किया गया है। पहले की चर्चाओं में नए उत्पादन प्रतिबंधों में 2 मिलियन बैरल प्रति दिन तक लागू करने की संभावना पर विचार किया गया है। बाजार ने अतिरिक्त कटौती की पर्याप्त संभावना का अनुमान लगाया था, जिसमें अधिक विस्तारित और आधिकारिक गैर-स्वैच्छिक कटौती की संभावना भी शामिल थी। सऊदी अरब, रूस, यूईई, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान और अल्जीरिया सहित प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने स्पष्ट किया कि बाजार की स्थितियों पर निर्भर करते हुए कुल 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन की कुल कटौती पहली तिमाही के बाद धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। एक अलग घटनाक्रम में, ब्राजील ने आगले साल ओपेक+ में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की, लेकिन इस तरह का निर्णय दक्षिण अमेरिकी दिग्गज को उत्पादन में कटौती के लिए बाध्य नहीं करेगा। आगे, कच्चे तेल की कीमतों को लगातार बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कीमतों को 6000 के करीब सपोर्ट मिल सकता है और 6500 के आसपास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच, हीटिंग की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सीमित ठंड के मौसम का संकेत देने वाले दीर्घकालिक पूर्वानुमानों से प्रभावित होकर, नेचुरल गैस में मामूली बढ़त देखी गई। लेकिन, प्रचुर भंडारण स्तर, रिकॉर्ड उत्पादन और कम मांग जैसे कारकों से बढ़त बाधित है। इस सप्ताह में, नेचुरल गैस की कीमतों के 220-250 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती हैं क्योंकि उम्मीद है कि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन उपायों का विस्तार करेगा। लेकिन कीमतों में बढ़त सीमित रह सकती है क्योंकि चीन के निराशाजनक सरकारी मैनुफैक्चरिंग आंकड़ों के अनुसार नवंबर में फैक्ट्री गतिविधि को लगातार दूसरे महीने तेज गति से कम हुई है जिससे संकेत मिलता है कि आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद के लिए अधिक नीतिगत समर्थन उपायों की आवश्यकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन की औद्योगिक कंपनियों के मुनाफे में अक्टूबर में तीसरे महीने बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धीमी गति से, जिससे पता चलता है कि सरकार से अधिक नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। तांबे की कीमतें 705-735 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। हरित ऊर्जा से औद्योगिक धातुओं की भारी मांग में वृद्धि दर के मामले में तांबा शीर्ष पर है, जबकि चीन के संपत्ति क्षेत्र में कमजोरी भी मांग पर असर डाल सकती है। निकट अवधि में तांबे की बेहतर मांग ने तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर नकद धातु के लिए छूट को 31 साल के उच्चतम स्तर 100 डॉलर से ऊपर से लगभग 88 डॉलर प्रति टन तक कम कर दिया है। चीन ने अक्टूबर में 353,000 मीट्रिक टन रिफाईंड तांबे का आयात किया, जो इस वर्ष की सबसे अधिक मासिक आयात है। जिंक की कीमतें 215-235 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण अमेरिका में खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने के नायरस्टार के फैसले से भविष्य में जिंक उत्पादन के बारे में चिंताएं बढ़ गईं, साथ ही आयरलैंड और पुर्तगाल में परिचालन रुक गया। लेड की कीमतें 182-190 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 195-212 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एक वैश्विक एल्युमीनियम उत्पादक ने जापानी खरीदारों को जनवरी-मार्च में प्रारंभिक एल्युमीनियम शिपमेंट के लिए 95 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का प्रीमियम देने की पेशकश की है, जो मौजूदा तिमाही के 97 डॉलर प्रति टन के प्रीमियम से 2% कम है। स्टील लॉन (दिसंबर) के 41700-44300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और बढ़त पर बेचने की रणनीति होनी चाहिए।

कच्चे तेल की आपूर्ति.....स्वैच्छिक कटौती जारी रहेगी

कच्चे तेल की कीमतें हाल के महीनों में गिरावट दर्ज की रही हैं और नवंबर 2023 में आधिकारिक तौर पर मंदी के बाजार में प्रवेश कर गईं। मंदी का बाजार बाजार में लंबे समय तक गिरावट की अवधि है, जिसे आम तौर पर हाल की ऊंचाई से 20% या उससे अधिक की गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। तेल की कीमतों को देखा जाय तो, 2023 की शुरुआत में अपने उच्चतम स्तर के बाद से कीमतों में 30% से अधिक की गिरावट हुई है।

- ओपेक+ के तेल उत्पादक देश 30 नवंबर को, सऊदी अरब के नेतृत्व में अगले साल की शुरुआत में लगभग 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती पर सहमत हुए। लेकिन, निवेशक बैठक से पहले उम्मीद कर रहे थे कि आपूर्ति में अतिरिक्त कटौती अधिक हो सकती है।
- बाजार में संभावित सरप्लस का सामना करने के पूर्वानुमानों के बीच समूह ने 2024 उत्पादन पर चर्चा की और सऊदी अरब द्वारा प्रति दिन 1 मिलियन बैरल की कटौती अगले महीने समाप्त होने वाली है।
- ओपेक+ पहले से ही कीमतों का समर्थन करने और बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन की कटौती के साथ का लगभग 43 मिलियन बैरल प्रति दिन का उत्पादन कर रहा है।
- ओपेक+ सितंबर के अंत में कीमतों में 98 डॉलर के करीब से गिरावट के कारण कम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और 2024 में कमजोर आर्थिक विकास और आपूर्ति सरप्लस की उम्मीदों पर चिंता व्यक्त कर रहा है।
- ओपेक ने बैठक के बाद एक बयान में कहा, आठ उत्पादकों से कुल प्रतिबंध 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन है। इस कटौती में 1.3 मिलियन बैरल प्रति दिन की सऊदी अरब और रूस की स्वैच्छिक कटौती में बढ़ोतरी भी शामिल है।
- बैठक में 900,000 बैरल प्रति दिन अतिरिक्त कटौती का वादा किया गया था, जिसमें रूस से 200,000 बैरल प्रति दिन ईंधन की निर्यात कटौती शामिल है, बाकी कटौती छह सदस्यों के बीच विभाजित होनेवाली है।
- संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि वह उत्पादन में 163,000 बैरल प्रति दिन की कटौती करने पर सहमत हुआ है जबकि इराक ने कहा कि वह पहली तिमाही में अतिरिक्त 220,000 बैरल प्रति दिन की कटौती करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने 2023 के तेल मांग में वृद्धि के पूर्वानुमान को 2.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक समायोजित कर दिया है, जो ओपेक के 2.46 मिलियन बैरल प्रति दिन के पूर्वानुमान के करीब है। 2024 के लिए, आईईए ने मांग में वृद्धि के अनुमान 880,000 बैरल प्रति दिन से बढ़ाकर 930,000 बैरल प्रति दिन कर दिया है, जो अभी भी ओपेक के 2.25 मिलियन बैरल प्रति दिन के पूर्वानुमान से कम है।

ओपेक+ देशों द्वारा तेल उत्पादन (मिलियन बैरल प्रति दिन में)

| | सितंबर-23 में आपूर्ति | अक्टूबर-23 में आपूर्ति | लक्ष्य की तुलना में अक्टूबर में उत्पादन | अक्टूबर-23 में लक्ष्य | सतत क्षमता |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|--------------|
| अल्जीरिया | 0.95 | 0.96 | 0 | 0.96 | 1 |
| अंगोला | 1.11 | 1.15 | -0.31 | 1.46 | 1.11 |
| कांगो | 0.25 | 0.26 | -0.05 | 0.31 | 0.27 |
| इक्वेटोरियल गिनी | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.06 |
| गैबॉन | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 0.21 |
| इराक | 4.34 | 4.38 | 0.16 | 4.22 | 4.75 |
| कुवैत | 2.59 | 2.57 | 0.02 | 2.55 | 2.83 |
| नाइजीरिया | 1.35 | 1.35 | -0.39 | 1.74 | 1.34 |
| सऊदी अरब | 9.03 | 9.01 | 0.03 | 8.98 | 12.16 |
| यूएई | 3.25 | 3.25 | 0.38 | 2.88 | 4.2 |
| कुल ओपेक-10 | 23.15 | 23.21 | -0.17 | 23.38 | 27.94 |
| ईरान | 3.14 | 3.1 | | | 3.8 |
| लीबिया | 1.15 | 1.13 | | | 1.22 |
| वेनेजुएला | 0.77 | 0.77 | | | 0.8 |
| कुल ओपेक | 28.21 | 28.21 | | | 33.76 |
| अजरबैजान | 0.49 | 0.49 | -0.19 | 0.68 | 0.54 |
| कजाकिस्तान | 1.62 | 1.63 | 0.08 | 1.55 | 1.67 |
| मेक्सिको | 1.66 | 1.67 | | | 1.68 |
| ओमान | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.85 |
| रूस | 9.5 | 9.53 | 0.08 | 9.45 | 9.98 |
| अन्य | 0.88 | 0.85 | -0.2 | 1.06 | 0.87 |
| कुल गैर-ओपेक | 14.95 | 14.98 | -0.24 | 13.54 | 15.58 |
| ओपेक+ 19 कटौती | | | | | |
| करार में | 36.44 | 36.51 | -0.4 | 36.92 | 41.84 |
| कुल ओपेक+ | 43.16 | 43.19 | | | 49.34 |

स्रोत: आईईए



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीटि द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।